



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2005/फाल्गुन 27, 1926

No. 270]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2005/PHALGUNA 27, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2005

का.आ. 340(अ) — केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1240 (अ) तारीख 3 नवम्बर, 2004 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, के द्वारा राजस्थान राज्य के कोटा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के कि.मी. 378.000 से कि. मी. 418.000 तक के भूखण्ड का निर्माण (चार लेन का बनाने) करने के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और, उक्त अधिसूचना का सार तारीख 24 नवम्बर 2004 के “राजस्थान पत्रिका” और “दैनिक भास्कर” दोनों में प्रकाशित किया गया था

और उक्त भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुए थे जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा के अधीन अननुज्ञात कर दिया गया था:

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 1 के अनुशरण में केंद्र सरकार को अपने रिपोर्ट दे दी है:

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना है:

और आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 2 के अनुशरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगनों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

## अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के 378/000 कि० मी० से 418/000 कि० मी० तक भूखण्ड में आने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण

जिला: कोटा

तहसील: लाडपुरा

क्र. स.	गांव का नाम	खसरा न.	भूमि का प्रकार	भूमि के प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सकतपुरा	466	सरकारी	वन भूमि	3.419	वन विभाग
		503	सरकारी	वन भूमि	5.336	वन विभाग
		505	सरकारी	वन भूमि	0.003	वन विभाग
		506	सरकारी	वन भूमि	0.002	वन विभाग
		507	सरकारी	वन भूमि	6.732	वन विभाग
		511	सरकारी	वन भूमि	0.362	वन विभाग
		513	सरकारी	वन भूमि	10.808	वन विभाग
		520	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	0.246	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		522	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	0.728	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		523	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	0.245	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		526	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	2.247	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		528	सरकारी	वन भूमि	0.406	वन विभाग
		531	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	1.18	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		532	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	0.76	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		533	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	0.748	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		542	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	0.079	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		544	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	0.03	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		547	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	0.128	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		546	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	0.008	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		549	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	0.033	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		550	सरकारी	मिलिट्री डिपार्टमेंट	0.231	मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट
		551	सरकारी	वन भूमि	0.548	वन विभाग
		557	सरकारी	वन भूमि	1.092	वन विभाग
		558	सरकारी	वन भूमि	4.116	वन विभाग
		559	सरकारी	वन भूमि	3.354	वन विभाग
		560	सरकारी	वन भूमि	1.41	वन विभाग
		576	सरकारी	वन भूमि	0.331	वन विभाग

1	2	3	4	5	6	7
		577	सरकारी	वन भूमि	6.404	वन विभाग
		578	सरकारी	वन भूमि	1.158	वन विभाग
2	शिवपुरा	13	सरकारी	यूटीआई कोटा	5.75	यूआईटी कोटा
		1/120	सरकारी	सिवाय चक	3.016	सिवाय चक
3	दौलतगंज उर्फ नयागांव	25 ध	सरकारी	खाली	9.28	वन विभाग
		82	सरकारी	खाली	1.124	सा. नि. वि.
		83	सरकारी	खाली	0.0515	सा. नि. वि.
		84	सरकारी	खाली	0.115	सा. नि. वि.
		86	सरकारी	खाली	0.29	सिवाय चक
		86/517	सरकारी	खाली	0.391	वन विभाग
		88	सरकारी	खाली	0.08	यूआईटी कोटा
4	रोजड़ी	11	सरकारी	खाली	3.34	वन विभाग
		12 ध	सरकारी	खाली	0.026	वन विभाग
		13	सरकारी	खाली	0.065	वन विभाग
		22	सरकारी	खाली	3.016	वन विभाग
		23	सरकारी	खाली	2.054	वन विभाग
		60	सरकारी	खाली	0.089	वन विभाग
		61	सरकारी	खाली	0.876	वन विभाग
		166	सरकारी	खाली	0.271	वन विभाग
5	आनन्दपुर उर्फ फुटा तालाब	3	सरकारी	खाली	0.135	सरकारी
		14	सरकारी	खाली	2	वन विभाग
		15	सरकारी	खाली	1.173	यूआईटी कोटा
		17	सरकारी	खाली	0.044	यूआईटी कोटा
		24	सरकारी	खाली	1.8	सिवाय चक
		27	सरकारी	खाली	0.76	वन विभाग
		28	सरकारी	खाली	0.26	वन विभाग
		32	सरकारी	खाली	1.76	वन विभाग
		15/116	सरकारी	खाली	0.916	वन विभाग
		17/118	सरकारी	खाली	0.23	यूआईटी कोटा
6	लखवा	99	सरकारी	यूटीआई कोटा	0.128	यूआईटी कोटा
		100	सरकारी	वन विभाग	1.755	वन विभाग
		101	सरकारी	वन विभाग	1.84	वन विभाग
		109	सरकारी	सिवाय चक	0.32	सिवाय चक
		110	सरकारी	सिवाय चक	3.05	सिवाय चक
		111	सरकारी	सिवाय चक	0.65	सिवाय चक
7	आनन्दपुरा	278	सरकारी	वन विभाग	0.3	वन विभाग
		279	सरकारी	नाला	0.04	सिवाय चक
		280	सरकारी	वन विभाग	4.81	वन विभाग
		281	सरकारी	सा. नि. वि.	0.15	सा. नि. वि.
		283	सरकारी	वन विभाग	2.8232.692 उ5.512	वन विभाग
		287	सरकारी	वन विभाग	0.47	वन विभाग
		288	सरकारी	वन विभाग	0.52	वन विभाग
		301	सरकारी	वन विभाग	7.056	वन विभाग
		284/316	सरकारी	वन विभाग	2.05	वन विभाग

1	2	3	4	5	6	7
8	उम्मेदगंज	16	सरकारी	वन	2.85	वन विभाग
		490	सरकारी	वन	2.65	वन विभाग
		491	सरकारी	वन	0.23	वन विभाग
		488	सरकारी	वन	4.07	वन विभाग
		492	सरकारी	वन	0.096	वन विभाग
		493	सरकारी	वन	0.072	वन विभाग
		494	सरकारी	वन	0.072	वन विभाग
		498	सरकारी	वन	0.192	वन विभाग
		499	सरकारी	वन	0.144	वन विभाग
		500	सरकारी	वन	1.28	वन विभाग
		501	सरकारी	वन	0.3	वन विभाग
		61	सरकारी	वन	1.12	वन विभाग
		51	सरकारी	खाली	0.96	रिजर्व बाई स्टेट यू/एस 92ए
		17	सरकारी	वन	0.096	वन विभाग
		64	सरकारी	वन	0.04	वन विभाग
		67	सरकारी	सिंचाई	0.144	सिंचाई विभाग
		66	सरकारी	वन	0.0032	वन विभाग
		130	सरकारी	सा. नि. वि.	0.04	सा. नि. वि.
		134	सरकारी	सा. नि. वि.	0.22	सा. नि. वि.
		246	सरकारी	पीएचईडी	0.26	पीएचईडी
		247	सरकारी	सिवाय चक	0.052	तहसीलदार
		249	सरकारी	पीएचईडी	0.056	पीएचईडी
		266	सरकारी	पीएचईडी	0.08	पीएचईडी
		259	सरकारी	सिंचाई विभाग	0.01	सिंचाई विभाग
		257	सरकारी	पीएचईडी	0.005	पीएचईडी
9	झालीपुरा	87	सरकारी	सिंचाई विभाग	0.11	सिंचाई विभाग नहर
		129	निजी	कृषि	0.0384	ओमप्रकाश पिता भैरवलाल
		156/295	सरकारी	सा. नि. वि.	0.003	सा. नि. वि.
10	बोरखंडी	449	निजी	कृषि	0.01	रामकिशन ओमप्रकाश मदनलाल गयानंद पिता रामरतन सुमन कौशल्या द्रोपदी पुत्री रामरतन शांति पत्नी रामरतन हि. 1/3रामचारी बाई पुत्री मदनबाई पुर्णिया पाला जाति खरवाल
		452	सरकारी	सिवाय चक	0.12	तहसीलदार
11	मनडानिया	4	सरकारी	सिवाय चक	0.25	तहसीलदार
		14	सरकारी	सिवाय चक	0.06	तहसीलदार
		15	सरकारी	सिवाय चक	0.01	तहसीलदार एक कुआं
		16	सरकारी	सिवाय चक	0.05	तहसीलदार आबादी 1. गोरी शंकर 2. बिमला देवी 3. मदनलाल 4. गणेश 5. ओमप्रकाश पिता हीरालाल 6. अमरलाल पिता रामकिशन 7. हंसराज पिता चतुर्भुज दो दुकान और मकान पक्का 8. खेमराज पिता बादीलाल पक्का दुकान 9. खेमा पिता केशरीलाल 10. गोपाल पिता रामनगर
		17	सरकारी	सिवाय चक	0.01	तहसीलदार
		18	सरकारी	सिवाय चक	0.02	तहसीलदार एक कुआं

1	2	3	4	5	6	7
		19	सरकारी	सिवाय चक	0.01	तहसीलदार पक्का मकान मोतीलाल पिता नन्दकिशोर
		20	निजी	कृषि	0.0032	नन्दकिशोर रामनाथ रामकरण पिता चतुर्भुज जाति धाकड़
		22	निजी	कृषि	0.07	दीनदयाल पिता गोपाल भंवर पिता पृथ्वी राजेन्द्र पिता धासीलाल राम पिता धासीलाल नालंदा बाल विद्यालय दीवार
		23	निजी	कृषि	0.05	सविता पत्नी जगदीश सुनीता शर्मा पत्नी सत्यमान रामनागर पिता धासी
		24	निजी	कृषि	0.05	नीतिश कुमार पिता धर्मचंद पुनीत पिता मनोहर सिंह दीवार सहित
		25	सरकारी	सिवाय चक	0.02	तहसीलदार
		26	सरकारी	सिवाय चक	0.024	तहसीलदार
		28	सरकारी	सिवाय चक	0.0232	तहसीलदार नदी
		39	सरकारी	सिवाय चक	0.02	तहसीलदार नाला
		89	सरकारी	सिवाय चक	0.2832	तहसीलदार
		174	सरकारी	सिवाय चक	0.0096	तहसीलदार दुकान पक्का रामनगर पिता भैरु रमेश पिता मदन मोहन दुकान पक्की
		175	सरकारी	सिवाय चक	0.032	तहसीलदार दीवार सहित
		177	निजी	कृषि	0.0384	देवीशंकर रामधन पिता बादीलाल 1/4 प्रभुलाल रामनारायण पिता गोपाल 1/2 गुलाबचंद चतुर्भुज सुखलाल पिता मोघोलाल 1/4
		195	निजी	कृषि	0.02	गुलाबचंद चतुर्भुज सुखलाल पिता मेघलाल 2/3 कमलकिशोर पिता सुखलाल बुद्धप्रकाश पिता गुलाबचंद 1/3
		196	निजी	कृषि	0.11	गुलाबचंद चतुर्भुज सुखलाल पिता मेघलाल 2/3 कमलकिशोर पिता सुखलाल बुद्धप्रकाश पिता गुलाबचंद 1/3
		201	निजी	कृषि	0.05	देवीशंकर पिता बादीलाल जाति धाकड़
		202	निजी	कृषि	0.01	देवीशंकर पिता बैरीलाल 1/2 धुपा पिता कंवर 1/2
		206	निजी	कृषि	0.0048	किशन पिता कहना माली
12	दायरा	67	निजी	कृषि	0.18	देवकरण मोहनलाल गुलाबशंकर चंदालाल पिता रामलाल जाति कांतिबाई पत्नी रामजानकी पत्नी रामलाल जाति जाट
		68	सरकारी	चारागाह	0.0048	चारागाह
		70	निजी	कृषि	0.17	मोतीलाल पिता लाला जाति बालाई
		71	निजी	कृषि	0.0384	ब्रजमोहन पिता धुलीलाल जाति मीणा
		74	निजी	कृषि	0.1136	भुलीबाई पत्नी माघोलाल पिता माघोलाल कन्या पुत्री माघोलाल मीणा
		75	निजी	कृषि	0.13	भुलीबाई पत्नी माघोलाल पिता माघोलाल कन्या पुत्री माघोलाल मीणा

915 95/2005-2

1	2	3	4	5	6	7
		76	निजी	कृषि	0.0256	चित्रा पिता माडु हि. 1/2 देवलाल बाबुलाल पिता मदनबाई सुगनाबाई प्रकाशबाई इंदिराबाई पुत्री रामजानकी पत्नी मुल्या हि. 1/2 जाति मीणा
		77	निजी	कृषि	0.0176	गुलाबचंद धुलीचंद पिता मथुरालाल कैलासबाई द्रोपदी पुत्री मोत्या पत्नी मथुरालाल मीणा
		78	सरकारी	सिवाय चक	0.0096	तहसीलदार
		79	सरकारी	सिवाय चक	0.008	तहसीलदार
		96	सरकारी	सिवाय चक	0.03	तहसीलदार
		115	निजी	कृषि	0.0208	भंवर सिंह भरत सिंह पिता उदय सिंह खुमान सिंह बापु सिंह गजेन्द्र सिंह महेन्द्र सिंह दीलिप सिंह पिता केशरी सिंह योगेन्द्र सिंह गजेश्वर सिंह पिता मंजु
		116	निजी	कृषि	0.0064	रामप्रसाद पिता बाल्या जाति कुम्हार
		117	निजी	कृषि	0.0032	बापु सिंह पिता केशरी सिंह राजपुत
		168	निजी	कृषि	0.0144	राधेश्याम पिता रामजीवन खुमावत
		171	निजी	कृषि	0.0384	राधेश्याम पिता रामजीवन खुमावत
		172	निजी	कृषि	0.0192	लटुर पिता गोबरिया देव पत्नी गोविंदा
		177	निजी	कृषि	0.0128	छोटया नंदा मोहन पिता किशना ज्ञानबाई पुत्री गियासी मोदीबाई पत्नी गियासी बंटी अशोक पिता कालू माली ममता भुली लक्ष्मी पुत्री कालु माली गीता पत्नी कालु बालाई
		184	निजी	कृषि	0.0112	मुरलीधर पिता रामकरण जगन्नाथी पत्नी रामकरण मीणा
		185	सरकारी	सिवाय चक	0.0005	तहसीलदार
		186	सरकारी	सिवाय चक	0.0096	तहसीलदार
		187	निजी	कृषि	0.0768	गोपाल मुतबन्ना ओंकार मीणा
		196	निजी	कृषि	0.06	भुलीबाई पत्नी माधोलाल पिता माधोलाल कन्या पुत्री माधोलाल मीणा
		197	निजी	कृषि	0.1006	नन्दकिशोर पिता घासी मीणा
		199	सरकारी	चारागाह	0.04	चारागाह
		200	सरकारी	चारागाह	0.04	चारागाह
		201	सरकारी	चारागाह	0.32	चारागाह
		204	निजी	कृषि	0.06	विशन सिंह पिता अर्जुन सिंह राजपुत
		215	निजी	कृषि	0.02	चितरलाल भैरूलाल पिता नारायण सीताबाई जानकी पुत्री नारायण पुष्पाबाई पत्नी नारायण जाति कुम्हार
		216	निजी	कृषि	0.02	राधेश्याम पिता रामजीवन जाति कुमावत
		221	निजी	कृषि	0.09	मोती माधो पिता सुख हि. 2/5 सोनामल पिता मथुरालाल हि. 1/5 बाबुलाल ओमप्रकाश ब्रिजबिहारी पिता गोपाल जानकी गीता सुगना पुत्री गोपाल गुलाब पत्नी गोपा ल. 1/5 मोत्या पत्नी हीरालाल 1/5 मीणा

1	2	3	4	5	6	7
		222	निजी	कृषि	0.06	बंसीलाल पिता मोडु मुतबन्ना जयलाल मीणा
		223	सरकारी	सिवाय चक	0.03	तहसीलदार
		227			0.02	लक्ष्मीचंद पिता जगन्नाथ मीणा
		232	निजी	कृषि	0.03	धन्नालाल बदरीलाल पिता माधो छन्नाबाई सोसरबाई पुत्री माधो मीणा
		233	निजी	कृषि	0.02	रामकल्याण पिता गोपाल कांतिलाल पिता लक्ष्मीचंद मीणा
		236	सरकारी	कृषि	0.01	तहसीलदार
		237	निजी	कृषि	0.03	चितर पिता माडु 1/2 देवलाल बाबुलाल पिता मुल्या मदन बाई सुगनाबाई प्रकाशबाई इंदिराबाई पुत्री मुल्या नगीना राजजानकी पत्नी मुल्या हि. 1/2 जाति मीणा
		238	निजी	कृषि	0.06	चितर पिता माडु 1/2 देवलाल बाबुलाल पिता मुल्या मदन बाई सुगनाबाई प्रकाशबाई इंदिराबाई पुत्री मुल्या नगीना राजजानकी पत्नी मुल्या हि. 1/2 जाति मीणा
		249	निजी	कृषि	0.07	भैरूलाल पिता रामगोपाल जाति मीणा
		250	निजी	कृषि	0.05	भंवर सिंह भरत सिंह पिता उदय सिंह कुमार सिंह बापु सिंह गजेन्द्र सिंह महेन्द्र सिंह दीलिप सिंह केशरी सिंह योगन्द्र सिंह गजराज सिंह पिता लक्ष्मण सिंह मंजु शोभा पिता लक्ष्मण सिंह नवल किशोर पत्नी लक्ष्मण सिंह
		251	निजी	कृषि	0.03	बिशन सिंह पिता अर्जुन सिंह राजपुत
		253	निजी	कृषि	0.01	दीलिप सिंह पिता केशरी सिंह
		255	निजी	कृषि	0.01	दीलिप सिंह पिता केशरी सिंह
		257	निजी	कृषि	0.03	शंकर सिंह पिता इंद्र सिंह राजपुत
		258	सरकारी	सिवाय चक	0.05	तहसीलदार
		306	सरकारी	सिवाय चक	0.33	तहसीलदार
		312	सरकारी	सिवाय चक	0.0336	तहसीलदार
		313	सरकारी	चारागाह	0.0032	चारागाह
		180/376		कृषि	0.0144	बंशीलाल पिता मोडु जयलाल मीणा
13	कैथोड़ी	106	निजी	कृषि	0.3	रामभरोस रामस्वरूप पिता रामकरण डाली पत्नी रामकरण सोसरबाई पुत्री रामकरण हि. 1/4 धन्नालाल अमरलाल पिता भैरीया हि. 1/2 रामभरोस रामस्वरूप पिता रामकरण सोसरबाई पुत्री रामकरण डाली पत्नी रामकरण 1/2 धन्नालाल अमरलाल पिता समरिया धन्नाबाई मोत्याबाई पुत्री समरिया 1/5 मीणा

1	2	3	4	5	6	7
		107	निजी	कृषि	0.0352	गोमदी पत्नी जगन्नाथ हि. 1/6 देवीलाल रामचंद्रा रामपाल पिता जगन्नाथ 1/2 मेमबाई पत्नी नन्द बिहारी धनराज पिता रामगोपाल 1/6 धनश्याम गिरिराज पिता रामप्रताप 1/6
		108	निजी	कृषि	0.04	गंगाराम पिता माधोलाल जाति मीणा
		110	सरकारी	सिवाय चक	0.56	तहसीलदार
		114	निजी	कृषि	0.01	जगमोहन सतीश पिता रूपलाल 1/5 प्रभुलाल रामलाल चेत्या कुमारी हरिकृष्ण पिता लक्ष्मीनारायण 4/5 जाति कायस्थ कोटा
		115	निजी	मंदिर	0.01	मंदिर भूमि माफी मंदिर शेषधरनाथ फतेहगढ़ कोटा
		118	निजी	मंदिर	0.02	मंदिर भूमि माफी मंदिर शेषधरनाथ फतेहगढ़ कोटा
		135	सरकारी	सिवाय चक	0.01	तहसीलदार
		136	सरकारी	सिवाय चक	0.01	तहसीलदार
		137	निजी	मंदिर	0.0432	मंदिर भूमि माफी मंदिर शेषधरनाथ फतेहगढ़ कोटा
		137/270	निजी	मंदिर	0.09	मंदिर भूमि माफी मंदिर शेषधरनाथ फतेहगढ़ कोटा
		149	निजी	मंदिर	0.02	माफी मंदिर शेषधरनाथ ब्रिजमैन फतेहगढ़ कोटा एक बोरिंग
		150	सरकारी	चारागाह	0.2	चारागाह
		152	सरकारी	चारागाह	0.008	चारागाह
		153	निजी	कृषि	0.03	रामभरोस रामस्वरूप पिता रामकरण डाली पत्नी रामकरण सोसरबाई पुत्री रामकरण 1/4 धन्नालाल अमरलाल पिता भैरिया 1/2 रामभरोस रामस्वरूप पिता रामकरण सोसरबाई पुत्री रामकरण डाली पत्नी रामकरण 1/20 धन्नालाल अमरलाल पिता धन्नीबाई मोत्याबाई पुत्री भैरिया 1/5 जाति मीणा
		154	निजी		0.0005	गंगाराम जगदीश हरदेव लक्ष्मीनारायण पिता माधो गीता पुत्री बर्जी पत्नी माधो जाति मीणा
		185	निजी	कृषि	0.001	गोमदी पत्नी जगन्नाथ 1/6 देवीलाल रामचन्द्रा रामपाल पिता जगन्नाथ 1/2 मेमबाई पत्नी गोपाल राम नयनबिहारी धनराज पिता रामगोपाल 1/6 धनश्याम गिरिराज पिता रामप्रताप 1/6 मीणा
		186	निजी	कृषि	0.01	गोमदी पत्नी जगन्नाथ 1/6 देवीलाल रामचन्द्रा रामपाल पिता जगन्नाथ 1/2 मेमबाई पत्नी गोपाल राम नयनबिहारी धनराज पिता रामगोपाल 1/6 धनश्याम गिरिराज पिता रामप्रताप 1/6 मीणा
		190	सरकारी	सिवाय चक	0.0032	तहसीलदार



1	2	3	4	5	6	7
		191	सरकारी	सिवाय चक	0.06	तहसीलदार
		200	सरकारी	सिवाय चक	0.0064	तहसीलदार
		201	सरकारी	सिवाय चक	0.05	पक्का मकान दुर्गा शंकर देवी पिता रामकुमार जाति धाकड़
		202	सरकारी	सिवाय चक	0.0096	तहसीलदार
		203	सरकारी	मंदिर	0.0048	
		205	सरकारी	मंदिर	0.02	
		208	सरकारी	मंदिर	0.03	
		209	सरकारी	मंदिर	0.0016	
		216	सरकारी	मंदिर	0.04	तहसीलदार
14	ताथेड़	420	निजी	कृषि	0.16	गिरधर सिंह पिता शंकर सिंह राजपुत
		421	निजी	कृषि	0.28	किशन पिता ओंकार जाति धाकड़
		430	निजी	कृषि	0.0864	सुरेन्द्र सिंह हिम्मत सिंह समुद्रा सिंह पिता नन्दा सिंह उर्मिला रतनबाई सोहन बाई गुडी बाई पुत्री नन्द सिंह रामकन्या पत्नी नन्दा सिंह जाति 1/4 फूलसिंह सामत सिंह पिता रावत सिंह हि. 1/2 चितर सिंह पिता चितर सिंह रामबाई सत्याबाई सुगनाबाई मनोजबाई पुत्री चितर सिंह और पुष्पा बाई पत्नी चितर सिंह हि. 1/4 जाति राजपुत
		431	निजी	कृषि	0.1	सुरेन्द्र सिंह हिम्मत सिंह समुद्रा सिंह पिता नन्दा सिंह उर्मिला रतनबाई सोहन बाई गुडी बाई पुत्री नन्द सिंह रामकन्या पत्नी नन्दा सिंह जाति 1/4 फूलसिंह सामत सिंह पिता रावत सिंह हि. 1/2 चितर सिंह पिता चितर सिंह रामबाई सत्याबाई सुगनाबाई मनोजबाई पुत्री चितर सिंह और पुष्पा बाई पत्नी चितर सिंह हि. 1/4 जाति राजपुत
		429	निजी	कृषि	0.104	सुरेन्द्र सिंह हिम्मत सिंह समुद्रा सिंह पिता नन्दा सिंह उर्मिला रतनबाई सोहन बाई गुडी बाई पुत्री नन्द सिंह रामकन्या पत्नी नन्दा सिंह जाति 1/4 फूलसिंह सामत सिंह पिता रावत सिंह हि. 1/2 चितर सिंह पिता चितर सिंह रामबाई सत्याबाई सुगनाबाई मनोजबाई पुत्री चितर सिंह और पुष्पा बाई पत्नी चितर सिंह हि. 1/4 जाति राजपुत

915 9I/2005-3

1	2	3	4	5	6	7
		434	निजी	कृषि	0.01	सुरेन्द्र सिंह हिम्मत सिंह समुद्रा सिंह पिता नन्दा सिंह उमीला रतनबाई सोहन बाई गुडी बाई पुत्री नन्द सिंह रामकन्या पत्नी नन्दा सिंह जाति 1/4 फूलसिंह सामत सिंह पिता रावत सिंह हि. 1/2 चितर सिंह पिता चितर सिंह रामबाई सत्याबाई सुगनाबाई मनोजबाई पुत्री चितर सिंह और पुष्पा बाई पत्नी चितर सिंह हि. 1/4 जाति राजपुत
		436	निजी	कृषि	0.07	पुष्प कंवर पत्नी प्रभु सिंह जाति राजपुत
		435	निजी	कृषि	0.24	पुष्प कंवर पत्नी प्रभु सिंह जाति राजपुत
		447	निजी	कृषि	0.096	प्रेमबाई पत्नी दुंगर सिंह हि. 1/3 अमर सिंह पिता फुकल सिंह हि. 1/3 केसर सिंह पिता अमर सिंह हि. 1/3 जाति राजपुत
		448	निजी	कृषि	0.16	भंवर सिंह पुष्प सिंह पिता करण सिंह हि. 2/3 करण सिंह पिता बजरंग सिंह हि. 1/3 जाति चमार
		393	निजी	कृषि	0.12	रामदेव रामकुमार पिता मथुरा चुन्याबाई पिता मथुरा मोहनलाल मेघराज रामचरण पुष्पाबाई मथुरा सुन्दर बाई पत्नी मथुरा
		449	निजी	कृषि	0.0512	गोगा धन्ना तेजपाल पिता मांगया जाति नायक
		450	निजी	कृषि	0.0288	गोगा धन्ना तेजपाल पिता मांगया जाति नायक
		457	निजी	कृषि	0.07	नन्दकिशोर हजारीलाल गिरजा प्रसाद राजेन्द्र पिता आन्नदीलाल लाडबाई पुत्री धनुबाई पत्नी आनंदलाल हि. 1/2 सुरजभाई मुलीबाई पुत्री रतनबाई हि. 1/2 जाति धाकड़
		452	निजी	कृषि	0.16	वितर पिता धन्नालाल जाति नायक
		453	निजी	कृषि	0.06	माधव पिता जगन्नाथ हि. 1/2 जाति समानपुरा रायकंवर पिता रामचंद्रा 1/2 जाति महाजन निवासी गायत्री बिहार कोटा
		455	सरकारी		0.0192	तहसीलदार
		394	सरकारी		0.0288	तहसीलदार
		392	सरकारी	कृषि	0.096	बैजुलाल पिता पन्नालाल जाति नायक
		345	सरकारी		0.17	सिवाय चक
		344	सरकारी		0.03	तहसीलदार
		301	सरकारी		0.1664	तहसीलदार
		256	निजी	कृषि	0.1	सुखलाल कन्हैयालाल पिता नाथुलाल जाति माली
		258/869/ 942	निजी	कृषि	0.12	मांगीलाल पिता नंदलाल जाति धाकड़

1	2	3	4	5	6	7
		264	निजी	कृषि	0.47	रामस्वरूप महावीर रामदयाल पिता हीरालाल कमला प्रेम पुत्री हीरालाल प्रेम बाई पत्नी हीरालाल जाति धाकड़
		265	निजी	कृषि	0.02	राम देवा रामनिवास हि. 2/3 बजरंगलाल रामकुमार प्रेमचंद भंवरी प्रसाद पिता गणेश राम और नाती पत्नी गणेश राम हि. 1/3 जाति मीणा
		247	निजी	कृषि	0.0112	रामेश्वर नंदलाल भंवरलाल हीरालाल भीमकुमार हीरालाल पिता गियासीलाल लाडकंवर संतोष बाई पुत्री गियासीलाल हि. 1/2 नंदकिशोर रामरतन बसंतीलाल पिता भंवरलाल धानकंवर बाई पुत्री भंवरलाल हि. 1/3 बाबुलाल कैलाशचंद दिनेश कुमार पुत्री रामकन्या पार्वती बाई पत्नी रामकन्या कांतिबाई द्रोपती सोधर बाई अनीता बाई पुत्री रामकन्या हि. 7/12 ब्रजगोपाल राविशंकर
		246	सरकारी		0.0192	तहसीलदार
		249		कृषि	0.048	अब्बदुल करीम हकीम मो. समीम मो. सिदिकी मो. जामता पिता अब्बदुल मलीक करीमन बाई जुबेदा पुत्री अब्बदुल मलिक जाति मुस्लिम कोटा
		250	निजी	कृषि	0.03	अब्बदुल करीम हकीम मो. समीम मो. सिदिकी मो. जामता पिता अब्बदुल मलीक करीमन बाई जुबेदा पुत्री अब्बदुल मलिक जाति मुस्लिम कोटा
		245	निजी	कृषि	0.112	रामगोपाल ओमप्रकाश राजेन्द्र कुमार पिता रामचरण नारायणीबाई कैलाशबाई सुमीत्रा बाई पुत्री रामकन्या बाई पत्नी रामचन्द्रा 1/3 हि. 1/2 बालचंद पिता बजरंगलाल मदनबाई पुत्री बजरंगी जाति नायक
		473	निजी	कृषि	0.05	रामनारायण बालकिशन बिस्वीलाल गियासीलाल पिता बदरी गियासीलाल पत्नी बदरी
		474	निजी	कृषि	0.16	रामनारायण बालकिशन बिस्वीलाल गियासीलाल पिता बदरी गियासीलाल पत्नी बदरी
		475	निजी	कृषि	0.43	जगीश पिता रामनाथ जाति धाकड़
		480/1080	निजी	कृषि	0.19	मोहनलाल पिता रामनाथ जाति धाकड़
		618	निजी	कृषि	0.0496	प्रेमचंद पिता चेताराम जाति मीणा
		619	निजी	कृषि	0.0192	राजेन्द्र कुमार पिता गुलाब सिंह जाति कलाल
		630	निजी	कृषि	0.08	राजेन्द्र कुमार पिता गुलाब सिंह जाति कलाल

1	2	3	4	5	6	7
		620	निजी	कृषि	0.19	देवेन्द्र कुमार पिता गोकुल प्रसाद आशा बिमला पुत्री गोकुल प्रसाद स्नेह प्रभा पत्नी गोकुल प्रसाद हि. 1/2 जाति कायस्थ
		621	निजी	कृषि	0.852	अमृतलाल पिता मुलचुद रामकन्या पत्नी मुलचंद जाति धाकड़
		592	निजी	कृषि	0.048	अमृतलाल पिता मुलचुद रामकन्या पत्नी मुलचंद जाति धाकड़
		622	निजी	कृषि	0.172	परमानंद पिता रामजीवन रामचन्द्री धन्नाबाई निवासी रामजीवन
		623	निजी	कृषि	0.0368	परमानंद पिता रामजीवन रामचन्द्री धन्नाबाई निवासी रामजीवन
		624	निजी	कृषि	0.2	परमानंद पिता रामजीवन रामचन्द्री धन्नाबाई निवासी रामजीवन
		593/927	निजी	कृषि	0.725	रामनारायण पिता रामगोपाल जाति धाकड़
		468	निजी	कृषि	0.05	थाना चौकी
		469	निजी	कृषि	0.2	लक्ष्मीचंद नेमीचंद पिता मथुरा लक्ष्मीबाई धानकंवर बाई मथुरा मनभर बाई पुत्री मथुरा गोपाली पत्नी मथुरा
		593	निजी	कृषि	0.99	द्वारकालाल तुलसीराम जोधराज धन्नालाल और रतनबाई पुत्री धन्नालाल शांतिबाई पत्नी धन्नालाल हि. 1/5 अमृतलाल पिता मुलचंद रामकन्या बाई पत्नी मुलचंद हि. 1/5 रामकन्या कमलाबाई दुलारीबाई पुत्री रामगोपाल हि. 3/5 जाति धाकड़
		1079/480		कृषि	0.192	रामनिवास पिता गणेशराम जाति मीणा
		656	निजी	कृषि	0.0336	रामेश्वर नंदलाल चन्दलाल हरिलाल भीमकुमार हीरालाल पिता लाडकंवर संतोष बाई पुत्री गियार्सी लाल हि. 1/12 नंदकिशोर रामरतन बसंतीलाल पिता भंवरलाल धानकंवर बाई पुत्री धन्नालाल हि. 1/3 बाबुलाल कैलाशचंद्रा दिनेश कुमार पिता रामकन्या पार्वतीबाई पत्नी कुन्तीबाई द्रोपदी बाई सोधर बाई अनील बाई पुत्री रामकन्या हि. 7/27 ब्रिजगोपाल पिता शंकरलाल नितू कुमारी पुत्री शंकरलाल द्रोपदीबाई पत्नी शंकर लाल श्रीमती किरण जैन पत्नी अजय राज जैन निवासी बल्लभ नगर कोटा हि. 7/24
		654	निजी	कृषि	0.05	लक्ष्मीचंद नेमीचंद मथुरा लक्ष्मीबाई मथुरा लक्ष्मीचंद धानकंवर बाई मनभर बाई पुत्री मथुरा प्रतिमा गोपाली पत्नी मथुरा गोपाली बाई

1	2	3	4	5	6	7
		655	निजी	कृषि	0.03	लक्ष्मीचंद नेमीचंद मथुरा लक्ष्मी बाई धानकंवर बाई मनभर बाई पत्नी मथुरा प्रतिमा गोपाली पत्नी मथुरा
		653	निजी	कृषि	0.02	जमुनालाल पिता भंवरलाल जाति ब्रह्मण
		257	निजी	कृषि	0.096	बजरंग पिता माधो हि. 1/5 लदुर दत्तक पुत्र भैया पिता ओंगारिया पन्नालाल पिता भैरिया भोली बाई पुत्री मुलचंद पिता छोटया और आनंदीलाल पिता मन्नालाल जाति माली
		258	निजी	कृषि	0.06	लदुरलाल पिता गोपाल जाति ब्रह्मण
		631	निजी		0.02	श्री सुखरामजी महाराज विराजमान मंदिर भूमि
		786	सरकारी		0.0064	तहसीलदार
15	ब्रजेशपुरा	322	सरकारी	सिवाय चक	0.01	तहसीलदार
		323	सरकारी	सिवाय चक	0.01	तहसीलदार
		324	निजी	कृषि	0.02	कल्याणी बाई पत्नी सुखदेव मेघवाल
		325/1	निजी	कृषि	0.048	दिनेशचंद पिता बजरंगलाल जैन कोटा
		325/2	निजी	कृषि	0.048	ज्ञानचंद पिता बजरंग जैन कोटा
		325/3	निजी	कृषि	0.04	ओमप्रकाश पिता बजरंगलाल जैन कोटा
		349	सरकारी	सा. नि. वि.	0.0096	सा. नि. वि.
		399	निजी	कृषि	0.06	रामदेव पिता राणा मेघवाल
		401	निजी	कृषि	0.0192	कमला पत्नी मदन जाति घोबी
		402	निजी	कृषि	0.1504	कमला पत्नी मदन जाति घोबी ताथेर
		403	निजी	कृषि	0.1152	कमला पत्नी मदन जाति घोबी ताथेर
		405	निजी	कृषि	0.0496	रामदेव, रामनिवास पिता गणेश 2/3 बजरंगलाल शंकरलाल रामकुमार प्रेमलाल भंवरी पिता चेताराम नाइ पत्नी चेताराम जाति मीणा
		406	निजी	कृषि	0.1984	रामदेव, रामनिवास पिता गणेश 2/3 बजरंगलाल शंकरलाल रामकुमार प्रेमलाल भंवरी पिता चेताराम नाइ पत्नी चेताराम जाति मीणा
		407		कृषि	0.0912	बजरंग पिता चेताराम मीणा
		408		कृषि	0.0512	बजरंग पिता चेताराम मीणा
		409	सरकारी		0.13	सिंचाई विभाग
		410		कृषि	0.3	रामस्वरूप श्याम स्वरूप प्रह्लाद सत्यप्रकाश पिता बदरीलाल सुशीला गीता पुत्री बदरीलाल शांति पत्नी बदरीलाल
		412	सरकारी		0.24	तहसीलदार
		413	निजी	कृषि	0.04	रामस्वरूप श्याम स्वरूप प्रह्लाद सत्यप्रकाश पिता बदरीलाल सुशीला गीता पुत्री बदरीलाल शांति पत्नी बदरीलाल
		414	निजी	कृषि	0.3	छोटुलाल पिता गोरूलाल मीणा
		415	निजी	कृषि	0.02	रामेश्वर पिता गोपाल मीणा
		415/549	निजी	कृषि	0.07	हीरालाल पिता गोपाल मीणा

915 51/2005-4

1	2	3	4	5	6	7
		416		कृषि	0.06	सुशील कुमार पिता मदनलाल मेवर कोटा
		418	सरकारी	सिवाय चक	0.0016	तहसीलदार
		456	निजी	कृषि	0.0176	सुरजमल पिता जगन्नाथ मीणा
		457	निजी	कृषि	0.05	चतुर्भुज पिता जगन्नाथ मीणा
		458		कृषि	0.008	घाखा बाई पत्नी धन्नालाल
		459	सरकारी	सिवाय चक	0.0002	तहसीलदार
16	दसलाना	559	निजी	कृषि	0.2	कस्तुरचंद उर्फ किशनचंद पिता बालकिशन महाजन कोटा
		709	निजी	कृषि	0.14	भेदलाल पिता गेंदीलाल माली झालीपुरा
		710	निजी	कृषि	0.18	कनहैयालाल पिता धन्नालाल 2. रामप्रसाद पिता रामनाथ जाति मेहर निवासी दसलाना
		728	सरकारी	सिंचाई विभाग	0.06	सिंचाई विभाग
		729	सरकारी	सिवाय चक	0.0784	तहसीलदार
		739		कृषि	0.0864	विमल कुमार पिता गोविंदलाल ब्रह्मण कोटा
		740	सरकारी	सिवाय चक	0.096	तहसीलदार
		741	सरकारी	सिवाय चक	0.096	तहसीलदार
17	नया नोहरा	162	सरकारी	चारागाह	0.03	चारागाह
		161	सरकारी	चारागाह	0.757	चारागाह
		168	सरकारी	चारागाह	0.01	चारागाह
		160	सरकारी	चारागाह	0.02	चारागाह
		149	निजी	कृषि	0.107	धन्ना पिता तोलाराम जाति लश्करी
		152	निजी	कृषि	0.236	धन्ना पिता तोलाराम जाति लश्करी
		154	निजी	कृषि	0.112	चमनलाल और संतपवन कुमार आहुजा पिता चमनलाल और डा. रमेशचंद साहनी पिता लक्ष्मराम साहनी कोटा
		148	सरकारी	सिवाय चक	0.011	तहसीलदार
		155	सरकारी	स्कूल	0.3	राजकीय मध्य विद्यालय बोरखंडी
		289	सरकारी	सिंचाई	0.01	सिंचाई विभाग
		281	निजी	कृषि	0.2	लालचंद मोहनलाल पिता किशना पन्नीबाई देवबाई सुरजा बाई रामकन्या पुत्री किशना नारायणी पत्नी कृष्णा जाति लश्करी
		270	निजी	कृषि	0.02	बाबुलाल मोती पिता कालु 1/2 जयमंगल जमुनालाल मोतीलाल 1/2 जाति लश्करी
		248	निजी	कृषि	0.6984	किशनलाल ओमप्रकाश पिता धासीलाल 1/4 चतुर्भुज किशनलाल पिता धासीलाल 1/4 हरिशचंद जगदीश पिता चुन्नीबाई 1/2 लश्करी
		196		कृषि	0.125	महाराजा स्टोन 67 जखामाता
		195		कृषि	0.27	महाराजा स्टोन 67 जखामाता
		194	सरकारी	सिवाय चक	0.44	तहसीलदार
		146	सरकारी	सिवाय चक	0.125	तहसीलदार
		151	निजी	कृषि	0.32	खेमा धन्ना पिता तोलाराम जाति लश्करी

1	2	3	4	5	6	7
		150	निजी	कृषि	0.01	खेमा धन्ना पिता टोलाराम जाति लश्करी
		246	निजी	कृषि	0.24	बाबुलाल जमुनालाल ब्रिजमोहन पृथ्वीराज राजेन्द्र कुमार पिता रामलाल रामकंवरी यशोदा रजनी पुत्री रामलाल नाथीबाई पत्नी रामलाल रामचंद्रा पिता तुलसीराम प्रभुलाल पिता रतनलाल बालीबाई पुत्री रतनलाल पत्नी तुलसीराम 1/3 चेतनाराम पिता अकलाल मोहनी श्याम पुत्री रामलाल खेमचंद पिता नारायण गुलाब बाई भुशीबाई काशी बाई पुत्री नारायण 1/3 ओम प्रकाश पिता धासी 1/3 बलदेव राज पिता हरदेव 1/6
		245	निजी	कृषि	0.02	बाबुलाल जमुनालाल ब्रिजमोहन पृथ्वीराज राजेन्द्र कुमार पिता रामलाल रामकंवरी यशोदा रजनी पुत्री रामलाल नाथीबाई पत्नी रामलाल रामचंद्रा पिता तुलसीराम प्रभुलाल पिता रतनलाल बालीबाई पुत्री रतनलाल पत्नी तुलसीराम 1/3 चेतनाराम पिता अकलाल मोहनी श्याम पुत्री रामलाल खेमचंद पिता नारायण गुलाब बाई भुशीबाई काशी बाई पुत्री नारायण 1/3 ओम प्रकाश पिता धासी 1/3 बलदेव राज पिता हरदेव 1/6
		247		सिवाय चक	0.003	तहसीलदार
		249	निजी	कृषि	0.006	मोती पुष्पा शंकर पिता गंगाराम 3/6 फुलचंद कन्हैयालाल पिता धन्ना 1/6 भंवरी बाई पुत्री प्यारेलाल सरस्वती बाई पत्नी प्यारेलाल 1/6 जमुनालाल दौलतराम बाबुलाल पिता मुल्या दालीबाई बाबुलाल पिता मुल्या भूली बाई पत्नी मुल्या जाति लश्करी
		284	निजी	कृषि	0.104	पुरणमल पप्पु पिता नंदकिशोर 1/3 रामचंद्र मन्ना पिता मोडु 1/3 नन्दा पिता भैरु लालचंद पिता कश्यप 1/3 प्रेमबाई 1/3 जाति लश्करी
		159	सरकारी	सिवाय चक	0.03	तहसीलदार
		193	निजी	कृषि	0.17	लालचंद मोहनलाल पिता किशना पत्नीबाई देवबाई सुरजबाई रामकन्या पुत्री किशना नारायणी पत्नी किशना जाति लश्करी
18	हाथी खेड़ा	252/370	सरकारी	चारागाह	0.16	चारागाह
		251/356	निजी	कृषि	0.96	गोविंदलाल लंछमीनारायण पिता जुवारीलाल मीणा
		251	निजी	कृषि	0.128	ब्रजकंवर पत्नी करण सिंह राजपुत
		249	निजी	कृषि	0.62	दिलावर सिंह पिता नूर सिंह जाति सिख
		248	निजी	कृषि	0.03	दिलावर सिंह पिता नूर सिंह जाति सिख

1	2	3	4	5	6	7
		247	निजी	कृषि	0.39	कुलदीप सिंह पिता दिलावर सिंह जाति सिख
		246	निजी	कृषि	0.228	बख्तर सिंह पिता नूर सिंह जाति सिख
		246/363	निजी	कृषि	0.57	नरेन्द्रपाल सिंह पिता बख्तर सिंह जाति सिख
		241	निजी	कृषि	0.6	नारायण सोनीराम पंचुलाल पिता चन्दा 3/4 राम सिंह सुनील रामकुमार पिता गियासीराम मोहनी प्रेमा बाई पुत्री ग्यासी राम रूपाली पत्नी ग्यासी मीणा
		239	निजी	कृषि	1.3	हिककमतुला सफीउल्ला अमुल्ला रफीउल्ला पिता बिलायत खां हसीना सहजादे नूमीसा अहीदा पुत्री किफायत खां सुगी पत्नी किफायत खां हंस पिता रजिया मुस्लिम कोटा
		371/252	निजी	कृषि	0.149	बजकंवर पत्नी करण सिंह राजपुत
		9	निजी	कृषि	0.0242	चोथमल पिता कंवरलाल
		10	निजी	कृषि	0.96	नंद सिंह भुपेन्द्र सिंह श्याम सिंह महावीर सिंह इंदिरा सिंह पिता मोहन सिंह लक्ष्मी कंवर पुत्री मोहन सिंह राजपुत
		252	सरकारी	सिवाय चक	0.144	तहसीलदार
		29	निजी	कृषि	0.07	लक्ष्मीचंद पता विशाल सिंह जाति जाट
		29/328	निजी	कृषि	0.1024	आभागोत्रा पत्नी लक्ष्मीचंद गोधरा
		27	निजी	कृषि	0.07	रामरतन पिता पन्ना लश्करी
		28	निजी	कृषि	0.08	रामरतन पिता पन्ना लश्करी
		6	निजी	मंदिर	0.85	मुंदिर श्री मुरली मनोहर जी
		5	निजी	कृषि	0.28	महेश शाक्यवाल पिता भंवरलाल कोली काटडी
		4	निजी	कृषि	0.02	महेश शाक्यवाल पिता भंवरलाल कोली काटडी
		3	निजी	कृषि	0.106	महेश शाक्यवाल पिता भंवरलाल कोली काटडी
		2	निजी	मंदिर	0.252	मुंदिर श्री मुरली मनोहर जी
		1	सरकारी	सिवाय चक	0.21	तहसीलदार
		62	सरकारी	सिवाय चक	0.02	तहसीलदार
		253	सरकारी	सिवाय चक	0.18	तहसीलदार

[ फा. सं. भाराराप्रा/11014/तक./पूर्व-पश्चिम-2/एलए/कोटा/2003 ]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव



**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2005

**S.O. 340(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1240 (E) dated 3<sup>rd</sup> November, 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section-(ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building (four-laning) of National Highway No. 76 on the stretch of land from km 378/000 to km 418/000 including construction of Kota bypass, in District Kota, in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the that notification has been published in the Rajasthan Patrika dated the 24<sup>th</sup> November, 2004 and Dainik Bhasker dated the 24<sup>th</sup> November, 2004;

And whereas, objections have been received and same has been considered and disposed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto are to be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in Schedule annexed hereto, shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

915 9/2005-5

## SCHEDULE

Land with or without structure falling within the land stretch from km 378.000 to km 418.000 on National Highway No. 76 in the State of Rajasthan.

Kota: District

Tehsil: Ladpura

S No	Name of Village	Khasra No	Type of Land	Nature of Land	Land area in (Hacteres)	Name of Land Owner
1	2	3	4	5	6	7
1	Sakatpura	466	Government	Forest Land	3.419	Forest Department
		503	Government	Forest Land	5.336	Forest Department
		505	Government	Forest Land	0.003	Forest Department
		506	Government	Forest Land	0.002	Forest Department
		507	Government	Forest Land	6.732	Forest Department
		511	Government	Forest Land	0.362	Forest Department
		513	Government	Forest Land	10.808	Forest Department
		520	Government	Military Department	0.246	Military Area Department
		522	Government	Military Department	0.728	Military Area Department
		523	Government	Military Department	0.245	Military Area Department
		526	Government	Military Department	2.247	Military Area Department
		528	Government	Forest Department	0.406	Forest Department
		531	Government	Military Department	1.18	Military Area Department
		532	Government	Military Department	0.76	Military Area Department
		533	Government	Military Department	0.748	Military Area Department
		542	Government	Military Department	0.079	Military Area Department
		544	Government	Military Department	0.03	Military Area Department
		547	Government	Military Department	0.128	Military Area Department
		546	Government	Military Department	0.008	Military Area Department
		549	Government	Military Department	0.033	Military Area Department
		550	Government	Military Department	0.231	Military Area Department
		551	Government	Forest Land	0.548	Forest Department
		557	Government	Forest Land	1.092	Forest Department
		558	Government	Forest Land	4.116	Forest Department
		559	Government	Forest Land	3.354	Forest Department
		560	Government	Forest Land	1.41	Forest Department
		576	Government	Forest Land	0.331	Forest Department
		577	Government	Forest Land	6.404	Forest Department
		578	Government	Forest Land	1.158	Forest Department
2	Shivpura	13	Government	UIT Kota	5.75	UTI Kota
		1/120	Government	Siwai Chak	3.016	Siwai Chak

1	2	3	4	5	6	7
3	Daulat Ganj Alias Nayagaon	25 ml	Government	Vaccant	9.28	Forest Department
		82	Government	Vaccant	1.124	PWD Department
		83	Government	Vaccant	0.0515	PWD Department
		84	Government	Vaccant	0.115	PWD Department
		86	Government	Vaccant	0.29	Siwai Chak
		86/517	Government	Vaccant	0.391	Forest Department
		88	Government	Vaccant	0.08	UIT Kota
4	Rozdi	11	Government	Vaccant	3.34	Forest Department
		12 ml	Government	Vaccant	0.026	Forest Department
		13	Government	Vaccant	0.065	Forest Department
		22	Government	Vaccant	3.016	Forest Department
		23	Government	Vaccant	2.054	Forest Department
		60	Government	Vaccant	0.089	Forest Department
		61	Government	Vaccant	0.876	Forest Department
		166	Government	Vaccant	0.271	Forest Department
5	Anand Pura Alias Futa Talab	3	Government	Vaccant	0.135	UIT Kota
		14	Government	Vaccant	2	Forest Department
		15	Government	Vaccant	1.173	UIT Kota
		17	Government	Vaccant	0.044	UIT Kota
		24	Government	Vaccant	1.8	Siwai Chak
		27	Government	Vaccant	0.76	Forest Department
		28	Government	Vaccant	0.26	Forest Department
		32	Government	Vaccant	1.76	Forest Department
		15/116	Government	Vaccant	0.916	Forest Department
		17/118	Government	Vaccant	0.23	UIT Kota
6	Lakawa	99	Government	UIT Kota	0.128	UIT Kota
		100	Government	Forest Department	1.755	Forest Department
		101	Government	Forest Department	1.84	Forest Department
		109	Government	Siwai Chak	0.32	Siwai Chak
		110	Government	Siwai Chak	3.05	Siwai Chak
		111	Government	Siwai Chak	0.65	Siwai Chak
7	Anant Pura	278	Government	Forest Department	0.3	Forest Department
		279	Government	Drain	0.04	Siwai Chak
		280	Government	Forest Department	4.81	Forest Department
		281	Government	PWD	0.15	PWD
		283	Government	Forest Department	2.82+2.692 =5.512	Forest Department
		287	Government	Forest Department	0.47	Forest Department
		288	Government	Forest Department	0.52	Forest Department
		301	Government	Forest Department	7.056	Forest Department

1	2	3	4	5	6	7
		284/316	Government	Forest Department	2.05	Forest Department
8	Umedganj	16	Government	Forest	2.85	Forest Department
		490	Government	Forest	2.65	Forest Department
		491	Government	Forest	0.23	Forest Department
		488	Government	Forest	4.07	Forest Department
		492	Government	Forest	0.096	Forest Department
		493	Government	Forest	0.072	Forest Department
		494	Government	Forest	0.072	Forest Department
		498	Government	Forest	0.192	Forest Department
		499	Government	Forest	0.144	Forest Department
		500	Government	Forest	1.28	Forest Department
		501	Government	Forest	0.3	Forest Department
		61	Government	Forest	1.12	Forest Department
		51	Government	Vacant	0.96	Reserved by State u/s 92A.
		17	Government	Forest	0.096	Forest Department
		64	Government	Forest	0.04	Forest Department
		67	Government	Irrigation	0.144	Irrigation Department
		66	Government	Forest	0.0032	Forest Department
		130	Government	PWD	0.04	PWD Department
		134	Government	PWD	0.22	PWD Department
		246	Government	PHED	0.26	PHED
		247	Government	Siwaichak	0.052	Tehsildar
		249	Government	PHED	0.056	PHED
		266	Government	PHED	0.08	PHED
		259	Government	Irrigation Department	0.01	Irrigation Department
		257	Government	PHED	0.005	PHED
9	Jhalipura	87	Government	Irrigation Department	0.11	Irrigation Department (Cannal)
		129	Private	Agriculture	0.0384	Om Prakesh S/o Bharav lal
		156/295	Government	PWD Department	0.003	PWD Department
10	Borekhandi	449	Private	Agriculture	0.01	Ram kishan, Omprakesh, Madan lal, Gaya Nand S/o Ram Ratan, Suman, Kaushlya, Dropdi D/o Ram Ratan, Shanti W/o Ram Ratan share 1/3 Ramchari bai D/o Madanbai Purnia pala Cast Kharwal
		452	Government	Siwaichak	0.12	Tehsildar (River)
11	Mandania	4	Government	Siwaichak	0.25	Tehsildar
		14	Government	Siwaichak	0.06	Tehsildar
		15	Government	Siwaichak	0.01	Tehsildar. One well
		16	Government	Siwaichak	0.05	Tehsildar Abadi .1.Gori shanker, 2.Bamla devi House, 3.Madan lal Shop 4. Ganesh 5 Omprakesh S/o hira lal 6.Amar lal S/o Ram kishan 7. Hans Raj S/o Chatar bhuj 8.Khem Raj S/o Badi lal, 9.Khema S/o Kesri lal 10. Gopal S/o Ram Nagar
		17	Government	Siwaichak	0.01	Tehsildar. (Road)
		18	Government	Siwaichak	0.02	Tehsildar. One well.

1	2	3	4	5	6	7
		19	Government	Siwaichak	0.01	Tehsildar. Pakka house Moti lal S/o Nand Kishor
		20	Private	Agriculture	0.0032	Nand kishor Ram Nath, Ram karan S/o Chatur bhuji, Cast Dhakar
		22	Private	Agriculture	0.07	Deen Dayal S/o Gopal.01, Bhawar S/o Prithvi .01, Rajender S/o Ghasi lal .01, Ram S/o Ghasi lal.04.Kalal, Nalanda Bal Vidyalaya Boundry wall
		23	Private	Agriculture	0.05	Savita W/o Jagdish .01, Sunita Sharma W/o Satyaman .01, Ram Nagar S/o Ghasi lal .03
		24	Private	Agriculture	0.05	Nitish Kumar S/o Dharam chand Puneet S/o Manohar Singh (With boundry wall)
		25	Government	Siwaichak	0.02	Tehsildar
		26	Government	Siwaichak	0.024	Tehsildar
		28	Government	Siwaichak	0.0832	Tehsildar (River)
		39	Government	Siwaichak	0.02	Tehsildar (Drain)
		89	Government	Siwaichak	0.2832	Tehsildar
		174	Government	Siwaichak	0.0096	Tehsildar(Shop Pakki of Ram Nagar S/o Bhura),(Ramesh S/o Madan Mohan Shop pakki)
		175	Government	Siwaichak	0.032	Tehsildar (Boundry Wall)
		177	Private	Agriculture	0.0384	Davi shanker Ram dhan S/o Badilal 1/4, Prabhu lal Ram Narayan S/o Gopal 1/2 Gulab chand Chaturbhuj, Sukh lal S/o Madho lal 1/4
		195	Private	Agriculture	0.02	Gulab chand, Chatar Bhuj, Sukh lal S/o Maghalal 2/3, Kamal kishor S/o Sukh lal, Budhi prakesh S/o Gulab chand 1/3
		196	Private	Agriculture	0.11	Gulab chand, Chatar Bhuj, Sukh lal S/o Maghalal 2/3, Kamal kishor S/o Sukh lal, Budhi prakesh S/o Gulab chand 1/3
		201	Private	Agriculture	0.05	Davi shanker S/o Badilal Dhakar.
		202	Private	Agriculture	0.01	Davi shanker S/o Bari lal 1/2, Dhupa S/o Kavar 1/2
		206	Private	Agriculture	0.0048	Kishan S/o Kahna mali
12	Dayra	67	Private	Agriculture	0.18	Dev Karan, Mohan Lal, Gulab Shanker, Chandlal S/o Ram Lal Jat Kantibai D/o Ram Jankibai W/o Ramlal Cast Jat
		68	Government.	Charagha	0.0048	Charagah
		70	Private	Agriculture	0.17	Motilal S/o Lala Cast Balai
		71	Private	Agriculture	0.0384	Brajmohan S/o Dhulilal Cast Meena
		74	Private	Agriculture	0.1136	Bhulibai W/o Madholal S/o Madholal kanya D/o Madholal Meena

915 ५7 2005-6

1	2	3	4	5	6	7
		75	Private	Agriculture	0.13	Bhulibai W/o Madholal S/o Madholal kanya D/o Madholal Meena
		76	Private	Agriculture	0.0256	Chhitra S/o Modu Share 1/2 Devlal Babulal S/o Madanbai Sugnabai, prakashbai Indrabai D/o Ramjankee W/o Mulya share 1/2 Cast Meena
		77	Private	Agriculture	0.0176	Gulabchand Dhulichand S/o Mathuralal, kailashi Dropati D/o Motya W/o Mathuralal Meena
		78	Govt.	Siwaichak	0.0096	Tehsildar
		79	Govt.	Siwaichak	0.008	Tehsildar
		96	Govt.	Siwaichak	0.03	Tehsildar
		115	Private	Agriculture	0.0208	Bhanwar singh, Bhart Singh S/o Uday singh, Khuman Singh, Rapu Singh, Gajendra Singh, Mahender Singh Deelip Singh S/o Keshri Singh Jogender Singh Gajraj Singh S/o Maniu
		116	Private	Agriculture	0.0064	Ram Prasad S/o Balya Cast Kumhar
		117	Private	Agriculture	0.0032	Bapu Singh S/o Keshri Singh Rajput
		168	Private	Agriculture	0.0144	Radhe Shyam S/o Ram Jivan Khumawat
		171	Private	Agriculture	0.0384	Radhe Shyam S/o Ram Jivan Khumawat
		172	Private	Agriculture	0.0192	Latur S/o Gobariya Dev W/o Govaria
		177	Private	Agriculture	0.0128	Chhotya Nanda Mohan S/o Kishna, Jayanabai D/o Giyarsi Modibai W/o Giyarsi, Banti, Ashok S/o Kalu Malai, Mamta, Bhuli, Laxmi D/o Kalu Malai, Geeta W/o Kalu Balai
		184	Private	Agriculture	0.0112	Murlidhar, S/o Ramkaran, Jagannathi W/o Ramkaran Meena
		185	Government	Siwaichak	0.0005	Tehsildar
		186	Government	Siwaichak	0.0096	Tehsildar
		187	Private	Agriculture	0.0768	Gopal Mutbanna Onkar Meena
		196	Private	Agriculture	0.06	Bhulibai W/o Madholal S/o Madholal kanya D/o Madholal Meena
		197	Private	Agriculture	0.1006	Nandkishor S/o Ghasi Meena
		199	Government	Charagha	0.04	Charagha
		200	Government	Charagha	0.04	Charagha
		201	Government	Charagha	0.32	Charagha
		204	Private	Agriculture	0.06	Vishan Singh S/o Arjun Singh Rajput
		215	Private	Agriculture	0.02	Chhitarlal, Bhairulal S/o Narayan, Sitabai, janki D/o Narayan Pushpabai W/o Narayan Cast Kumhar

1	2	3	4	5	6	7
		216	Private	Agriculture	0.02	Radhe Shyam S/o Ram Jivan, Khumawat
		221	Private	Agriculture	0.09	Moti Madho S/o Sukha Share 2/5, Sonamal S/o Mathuralal Share 1/5 Babulal, Omprakash, Brijbihari S/o Gopal, Janki, Geeta, Sugna D/o Gopal, Gulab W/o Gopal Share 1/5 Motva W/o Heeralal 1/5 Meena
		222	Private	Agriculture	0.06	Bansilal S/o Modu Mutbala, Jailal Meena
		223	Government	Siwaichak	0.03	Tehsildar
		227	Private	Agriculture	0.02	Laxmichand S/o Jagannath Meena
		232	Private	Agriculture	0.03	Dhannalal, Badrilal S/o Madho, Chhanabai, Sosarbai D/o Madho Meena
		233	Private	Agriculture	0.02	Ramkalyan S/o Gopal, Kantilal S/o Laxmichand Meena
		236	Government	Agriculture	0.01	Tehsildar
		237	Private	Agriculture	0.03	Chhitar S/o Modu 1/2 Devlal Babulal S/o Mulya, Madan bai, Sugnabai, Prakashbai, Indrabai D/o Mulya, Nagina, Ramjanki W/o Mulya Share 1/2 Cast Meena
		238	Private	Agriculture	0.06	Chhitar S/o Modu 1/2 Devlal Babulal S/o Mulya, Madan bai, Sugnabai, Prakashbai, Indrabai D/o Mulya, Nagina, Ramjanki W/o Mulya Share 1/2 Cast Meena
		249	Private	Agriculture	0.07	Bhairulal S/o Ramgopal Cast Meena
		250	Private	Agriculture	0.05	Bhanwar Singh, Bhart Singh S/o Uday singh, Kumar Singh, Bapu Singh, Gajendra Singh, Mahender Singh Deelip Singh, Keshri Singh, Jogender Singh, Gajraj Singh S/o Laxman Singh, Manju, Sabna D/o Laxman Singh, Nawal Kishor W/o Laxman Singh
		251	Private	Agriculture	0.03	Bishan Singh S/o Arjun Singh Rajput
		253	Private	Agriculture	0.01	Deelip Singh S/o Keshri Singh
		255	Private	Agriculture	0.01	Deelip Singh S/o Keshri Singh
		257	Private	Agriculture	0.03	Shankar Singh S/o Inder Singh Rajput
		258	Government	Siwaichak	0.05	Tehsildar
		306	Government	Siwaichak	0.33	Tehsildar
		312	Government	Siwaichak	0.0336	Tehsildar
		313	Government	Charagah	0.0032	Charagah
		180/376	Private	Agriculture	0.0144	Bansilal S/o Modu, Jailal Meena

1	2	3	4	5	6	7
13	Kathori	106	Private	Agriculture	0.3	Ram Bharos, Ram Swaroop S/o Ramkaran, Dali W/o Ramkaran, Sosarbai D/o Ramkaran Share 1/4 Dhannalal, Amarlal S/o Bheriya share 1/2 Rambharosh, Ramswaroop S/o Ram Karan, Sosarbai D/o Ram Karan Dali W/o Ramkaran Share 1/2 Dhanna lal Amarlal S/o Samaria, Dhannibai, Motayabai D/o Samaria Share 1/5 Meena
		107	Private	Agriculture	0.0352	Gomdi W/o Jagannath share 1/6 Devilal, Ramchandra, Rampal S/o Jagannath 1/2 Membai W/o Nandbihari, Dhanraj S/o Ramgopal 1/6 Ghanshyam Giriraj S/o Rampratap 1/6
		108	Private	Agriculture	0.04	Gangaram S/o Madholal Cast Meena
		110	Government	Siwaichak	0.56	Tehsildar
		114	Private	Agriculture	0.01	Jagmohan, Satish S/o Rooplal 1/5 Prabhulal, Ramlal, Chetna Kumari, Harikrishan S/o Laxminarayan 4/5 kaistha kota
		115	Private	Temple	0.01	Temple Land, Maphi Mandir, Seshdharnath Birajman Phategarh Kota
		118	Private	Temple	0.02	Temple Land, Maphi Mandir, Seshdharnath Birajman Phategarh Kota
		135	Government	Siwaichak	0.01	Tehsildar
		136	Government	Siwaichak	0.01	Tehsildar
		137	Private	Temple	0.0432	Temple Land, Maphi Mandir, Seshdharnath Birajman Phategarh Kota
		137/270	Private	Temple	0.09	Temple Land, Tube well with Electric Conection Maphi Mandir, Seshdharnath Birajman Phategarh Kota
		149	Private	Temple	0.02	Maphi Mandir, Seshdharnath Birajman Phategarh Kota One Boring
		150	Government	Charagah	0.2	Charagah
		152	Government	Charagah	0.008	Charagah



1	2	3	4	5	6	7
		153	Private	Agriculture	0.03	Rambharos, Ramswaroop S/o Ram Karan Dali W/o Ram Karan, Sosarbai D/o Ramkaran 1/4 Dhannalal Amarlal S/o Bheriya 1/2 Rambharos Ramswaroop S/o Ram Karan Sosarbai D/o Ram Karan Dali W/o Ramkaran 1/20 Dhannalal Amarlal S/o Dhannibai Motayabai D/o Bheriya 1/5 Cast Meena
		154	Private	Agriculture	0.0005	Gangaram Jagdish Hardev Laxminarayan S/o Madho Geeta D/o Barji W/o Madho Cast Meena
		185	Private	Agriculture	0.001	Gomdi W/o Jagannath 1/6 Devilal Ramchandra, Rampal S/o Jagannath 1/2, Membai W/o Gopal Ram Nanbihari, Dhanraj S/o Ramgopal 1/6, Ghanshyam Giriraj S/o Rampratap 1/6 Meena
		186	Private	Agriculture	0.01	Gomdi W/o Jagannath 1/6 Devilal Ramchandra, Rampal S/o Jagannath 1/2, Membai W/o Gopal Ram Nanbihari, Dhanraj S/o Ramgopal 1/6, Ghanshyam Giriraj S/o Rampratap 1/6 Meena
		190	Government	Siwaichak	0.0032	Tehsildar
		191	Government	Siwaichak	0.06	Tehsildar
		200	Government	Siwaichak	0.0064	Tehsildar
		201	Government	Siwaichak	0.05	Pacca House, Durga Shanker, Devi Shanker s/o Ramkunwar Cast Dhaker
		202	Government	Siwaichak	0.0096	Tehsildar
		203	Government	Temple	0.0048	
		205	Government	Temple	0.02	
		208	Government	Temple	0.03	
		209	Government	Temple	0.0016	
		216	Government	Temple	0.04	
14	Tathed	420	Private	Agriculture	0.16	Girdhar Singh S/o Shanker Singh Rajput
		421	Private	Agriculture	0.28	Kishna S/o Onkar Cast Dhakar
		430	Private	Agriculture	0.0864	Surender Singh, Himmat Singh, Samudra Singh S/o Nanda Singh Urmila, Ratanbai, Sohanbai, Guddibai D/o Nand Singh, Ram kanya W/o Nanda Singh Share 1/4 Phulsingh, Samat Singh S/o Rawat Singh Share 1/2 Chhitar Singh S/o Chittar Singh Rambai, Shayarbai, Suganbai, Manojbai D/o Chhitar Singh & Pushpabai W/o Chhitar Singh share 1/4 Cast Rajput

915 41/2005-7

1	2	3	4	5	6	7
		431	Private	Agriculture	0.1	Surender Singh, Himmat Singh, Samudra Singh S/o Nanda Singh Urmila, Ratanbai, Sohanbai, Guddibai D/o Nand Singh, Ram kanya W/o Nanda Singh Share 1/4 Phulsingh, Samat Singh S/o Rawat Singh Share 1/2 Chhitar Singh S/o Chittar Singh Rambai, Shayarbai, Suganbai, Manojbai D/o Chhitar Singh & Pushpabai W/o Chhitar Singh share 1/4 Cast Rajput
		429	Private	Agriculture	0.104	Surender Singh, Himmat Singh, Samudra Singh S/o Nanda Singh Urmila, Ratanbai, Sohanbai, Guddibai D/o Nand Singh, Ram kanya W/o Nanda Singh Share 1/4 Phulsingh, Samat Singh S/o Rawat Singh Share 1/2 Chhitar Singh S/o Chittar Singh Rambai, Shayarbai, Suganbai, Manojbai D/o Chhitar Singh & Pushpabai W/o Chhitar Singh share 1/4 Cast Rajput
		434	Private	Agriculture	0.01	Surender Singh, Himmat Singh, Samudra Singh S/o Nanda Singh Urmila, Ratanbai, Sohanbai, Guddibai D/o Nand Singh, Ram kanya W/o Nanda Singh Share 1/4 Phulsingh, Samat Singh S/o Rawat Singh Share 1/2 Chhitar Singh S/o Chittar Singh Rambai, Shayarbai, Suganbai, Manojbai D/o Chhitar Singh & Pushpabai W/o Chhitar Singh share 1/4 Cast Rajput
		436	Private	Agriculture	0.07	Push Kavar W/o Prabhu Singh Cast Rajput
		435	Private	Agriculture	0.24	Push Kavar W/o Prabhu Singh Cast Rajput
		447	Private	Agriculture	0.096	Prembai W/o Dungar Singh Share 1/3 Amar Singh S/o Phukal Singh Share 1/3, Keshar Singh S/o Amar Singh Share 1/3 Cast Rajput.
		448	Private	Agriculture	0.16	Bhawanr Singh, Pushp singh S/o Karan Singh Share 2/3, Karan Singh S/o Bajrang Singh Share 1/3 Cast Chamar
		393	Private	Agriculture	0.12	Ramdev, Ramkumar S/o Mathura, Chunyabai D/o Mathura Mohanlal, Meghraj, Ramcharan, Pushpabai Mathura Sunderbai W/o Mathura
		449	Private	Agriculture	0.0512	Goga, Dhanna, Tejpal S/o mangiya Cast Nayak

1	2	3	4	5	6	7
		450	Private	Agriculture	0.0288	Goga, Dhanna, Tejpal S/o mangiya Cast Nayak
		457	Private	Agriculture	0.07	Nand kishor, Hajarilal, Girja Prasad Rajender S/o Anandilal, Ladbai D/o Dhapubai W/o Anandilal Share 1/2 Surjabai, Mulibai D/o Ratnabai Share 1/2 Cast Dhakar
		452	Private	Agriculture	0.16	Chhitar S/o Dhannalal Cast Nayak
		453	Private	Agriculture	0.06	Madhaw S/o Jagannath share 1/2 Cast Samanpura, Raikuwar S/o Ramchandra 1/2 Cast Mahajan R/o Gaytri vihar kota
		455	Government	Siwaichak	0.0192	Tehsildar
		394	Government	Siwaichak	0.0288	Tehsildar
		392	Private	Agriculture	0.096	Bajulal S/o Pannalal Cast Nayak
		345	Government	Siwaichak	0.17	Siwaychak
		344	Government	Siwaichak	0.03	Tehsildar
		301	Government	Siwaichak	0.1664	Tehsildar
		256	Private	Agriculture	0.1	Sukhlal, Kanhayalal S/o Nathulal Cast Mali
		258/869/ 942	Private	Agriculture	0.12	Mangilal S/o Nandlal Cast Dhakar
		264	Private	Agriculture	0.47	Ram Swaroop Mahaveer, Ramdayal S/o Heeralal Kamla Prem D/o Heeralal Prem Bai W/o Heeralal Cast Dhakar
		265	Private	Agriculture	0.02	Ram Deva, Ramniwas Share 2/3, Bajranglal, Ramkumar, Premchand, Banwari Prasad S/o Ganesh Ram & Nati W/o Ganesh Ram Share 1/3 Cast Meena
		247	Private	Agriculture	0.0112	Rameshwar Nandlal, Bhanwanlal Heeralal Bhimkumar, Heeralal S/o Giyarsilal Ladkanwar Santoshbai D/o Giyarsilal Share 1/12 Share 1/2 Nandkishor, Ramratan Basantilal S/o Bhawarlal, Dhankanwar Bai D/o Bhawarlal Share 1/3 Share 1/2 Babulal Kailashchand Dinesh Kumar D/o Ram kalyan Parwatibai W/o Ram kalyan Kantibai, Dropati, Sodhrabai, Anitabai, D/o Ramkalyan Share 7/12 Brajgopal, Raviprakash
		246	Government	Siwaichak	0.0192	Tehsildar
		249	Private	Agriculture	0.048	Abdul Karim, Hakim, Mohamad Samim, Mohamad Sidiki, Mohamad Jamata S/o Abdul Malik Karimanbai Jubeda D/o Abdul Malik Cast Muslim Kota

1	2	3	4	5	6	7
		250	Private	Agriculture	0.03	Abdul Karim, Hakim, Mohamad Samim, Mohamad Sidiki, Mohamad Jamata S/o Abdul Malik Karimanbai Jubeda D/o Abdul Malik Cast Muslim Kota
		245	Private	Agriculture	0.112	Ramgopal, Omprakash, Rajendra Kumar S/o Ramchandar, Narayanibai, Kailashbai, Sumitrabai D/o Ramkanya Bai W/o Ramchandra 1/3 share 1/2 Balchand S/o Bajranglal, Madnibai D/o Bajrangi Cast Nayak
		473	Private	Agriculture	0.05	Ramnarayan, Balkishan, Birdhilal, Giyarsilal S/o Badri Giyarsilal W/o Badri
		474	Private	Agriculture	0.16	Ramnarayan, Balkishan, Birdhilal, Giyarsilal S/o Badri Giyarsilal W/o Badri
		475	Private	Agriculture	0.43	Jagish S/o Ramnath Cast Dhakar
		480/1080	Private	Agriculture	0.19	Mohanlal S/o Ramnath Cast Dhakar
		618	Private	Agriculture	0.0496	Premchand S/o Chetram Cast Meena
		619	Private	Agriculture	0.0192	Rajendra Kumar S/o Gulab Singh Cast Kalal
		630	Private	Agriculture	0.08	Rajendra Kumar S/o Gulab Singh Cast Kalal
		620	Private	Agriculture	0.19	Devendra Kumar S/o Gokul Prasad Asha Bimla D/o Gokul Prasad, Sneha Prabha W/o Gokul Prasad Share 1/2 Cast Kavasth
		621	Private	Agriculture	0.852	Amritlal S/o Mulchand Ramkanya W/o Mulchand Cast Dhakar
		592	Private	Agriculture	0.048	Amritlal S/o Mulchand Ramkanya W/o Mulchand Cast Dhakar
		622	Private	Agriculture	0.172	Parmanand S/o Ramjivan, Ramchandri, Dhannibai R/o Ramjivan
		623	Private	Agriculture	0.0368	Parmanand S/o Ramjivan, Ramchandri, Dhannibai R/o Ramjivan
		624	Private	Agriculture	0.2	Parmanand S/o Ramjivan, Ramchandri, Dhannibai R/o Ramjivan
		593/927	Private	Agriculture	0.725	Ramnarayan S/o Ramgopal Cast Dhakar
		468	Private	Agriculture	0.05	Police Post
		469	Private	Agriculture	0.2	Laxmichand, Nemichand, S/o Mathura, Laxmibai, Dhankanwarbai, Mathura Manbherbai, D/o Mathura Gopali W/o Mathura

1	2	3	4	5	6	7
		593	Private	Agriculture	0.99	Dwarkalal, Tulsiram, Jodhraj S/o Dhannalal & Ratanbai D/o Dhannalal, Shantibai W/o Dhannalal Share 1/5, Amritlal S/o Mulchand, Ramkanyabai W/o Mulchand Share 1/5 Ramnarayan, kamlabai Dularibai D/o Ramgopal Share 3/5 Cast Dhakar
		1079/480	Private	Agriculture	0.192	Ramniwas S/o Ganeshram Cast Meena
		656	Private	Agriculture	0.0336	Rameshwar, Nandlal, Chandlal, Harilal, Bhimkumar, Heeralal S/o Lodkanwar, Santoshbai D/o Giyarsilal share 1/12 same Nandkishor, Ramratan Basantilal S/o Bhanwarlal, Dhankanwarbai D/o Dhannalal Share 1/3, Babulal kailashchandra, Dinesh Kumar S/o Ramkanya Parwatibai W/o Kintibai, Dropatibai, Sodharabai, Anilbai D/o Ramkalyan Share 7/27 Brijgopal S/o Shankerlal, Nitukumari D/o Shankerlal, Dropatibai W/o Shankerlal, Smt. Kiran Jain W/o Ajay Raj Jain R/o Bhalab Nagar Kota Share 7/24
		654	Private	Agriculture	0.05	Laxmichand, Nemichand Mathura Laxmibai, Dhankanwarbai, Manbherbai D/o Mathura Pratima gopali W/o Mathura Gopalibai.
		655	Private	Agriculture	0.03	Laxmichand, Nemichand Mathura Laxmibai, Dhankanwarbai, Manbherbai W/o Mathura Pratima gopali W/o Mathura
		653	Private	Agriculture	0.02	Jamunalal S/o Bhanwarlal Cast Brahman
		257	Private	Agriculture	0.096	Bajrang S/o Madho share 1/5 Latur adopedated Bheia S/o Ogaria, Pannalal S/o Bheria Bholibai D/o Mulchand S/o Chhotya & Anandilal S/o Mannalal Cast Mali
		258	Private	Agriculture	0.06	Laturlal S/o Gopal Cast Brahman
		631	Private	Temple	0.02	Shri Sukhranjai Maharaj Virajman Temple Land
		786	Government	Siwaichak	0.0064	Tehsildar
15	Brijeshpura	322	Government	Siwaichak	0.01	Tehsildar
		323	Government	Siwaichak	0.01	Tehsildar
		324	Private	Agriculture	0.02	kalyanibai W/o Sukhdev Meghwal
		325/1	Private	Agriculture	0.048	Dineshchand S/o Bajranglal Jain Kota
		325/2	Private	Agriculture	0.048	Gyanchand S/o Bajrang Jain Kota

915 42/2005-8

1	2	3	4	5	6	7
		325/3	Private	Agriculture	0.04	Omprakash S/o Bajranglal Jain Kota
		349	Government	PWD	0.0096	PWD Department
		399	Private	Agriculture	0.06	Ramdev S/o Rama Meghwal
		401	Private	Agriculture	0.0192	Kamala W/o Madan Cast Dhobi
		402	Private	Agriculture	0.1504	Kamala W/o Madan Dhobi Tather
		403	Private	Agriculture	0.1152	Kamala W/o Madan Dhobi Tather
		405	Private	Agriculture	0.0496	Ramdew, Ramniwas S/o Ganesh2/3 Bajranglal, Shankerlal, Ramkumar, Premlal, Banwari S/o Chetram Nali W/o Chetram Cast Meena
		406	Private	Agriculture	0.1984	Ramdew, Ramniwas S/o Ganesh2/3 Bajranglal, Shankerlal, Ramkumar, Premlal, Banwari S/o Chetram Nali W/o Chetram Cast Meena
		407	Private	Agriculture	0.0912	Bajrang S/o Chetram Meena
		408	Private	Agriculture	0.0512	Bajrang S/o Chetram Meena
		409	Government	Irrigation	0.13	Irrigation Dept.
		410	Private	Agriculture	0.3	Ramswaroop, Shyam Swaroop, Pahalad, Satyaprakash S/o Badrilal, sushila, Geeta D/o Badrilal, Shanti W/o Badrilal
		412	Government	Siwaichak	0.24	Tehsildar
		413	Private	Agriculture	0.04	Ramswaroop, Shyam Swaroop, Pahalad, Satyaprakash S/o Badrilal, sushila, Geeta D/o Badrilal, Shanti W/o Badrilal
		414	Private	Agriculture	0.3	Chhotulal S/o Gorulal Meena
		415	Private	Agriculture	0.02	Rameshwar S/o Gopal Meena
		415/549	Private	Agriculture	0.07	Heeralal S/o Gopal Meena
		416	Private	Agriculture	0.06	Sushil Kumar S/o Madanlal Mewar Kota
		418	Government	Siwaichak	0.0016	Tehsildar
		456	Private	Agriculture	0.0176	SurajMal S/o Jagannath Meena
		457	Private	Agriculture	0.05	Chaturbhuj S/o Jagannath Meena
		458	Private	Agriculture	0.008	Dakhabai W/o Dhannalal Meghwal
		459	Government	Siwaichak	0.0002	Tehsildar
16	Daslana	559	Private	Agriculture	0.2	Kasturchand Alias Kishanchand S/o Balkrishan Mahajan Kota
		709	Private	Agriculture	0.14	Bhedlal S/o Gendilal Mali Jhalipura
		710	Private	Agriculture	0.18	Kanheyalal S/o Dhannalal 2. Ramprasad S/o Ramnath Cast Mehar R/o Daslana
		728	Government	Irrigation	0.06	Irrigation Dept.
		729	Government	Siwaichak	0.0784	Tehsildar
		739	Private	Agriculture	0.0864	Vimal Kumar S/o Govindlal Brahman Kota
		740	Government	Siwaichak	0.096	Tehsildar
		741	Government	Siwaichak	0.096	Tehsildar
17	Nayanohra	162	Government	Charagha	0.03	Charagha
		161	Government	Charagha	0.757	Charagha
		168	Government	Charagha	0.01	Charagha

1	2	3	4	5	6	7
		160	Government	Charagha	0.02	Charagha
		149	Private	Agriculture	0.107	Dhanna S/o Tolaram Laskari
		152	Private	Agriculture	0.236	Dhanna S/o Tolaram Laskari
		154	Private	Agriculture	0.112	Chamanlal & Sant pawan Kumar Ahuja S/o , Chamanlal & Dr. Rameshchand Sahni S/o Laxcha Ram Sahni Kota
		148	Government	Siwaichak	0.011	Tehsildar
		155	Government	School	0.3	National Middle School Borkhandi
		289	Government	Irrigation	0.01	Irrigation Dept.
		281	Private	Agriculture	0.2	Lalchand, Mohanlal S/o Kishana, Pannibai, Devbai , Surjabai Ramkanya D/o Kishna, Narayani W/o Krishna cast Laskari
		270	Private	Agriculture	0.02	Babulal, Moti S/o kalu 1/2, Jaimangal Jamunalal Motilal 1/2 Cast Laskari
		248	Private	Agriculture	0.6984	Kishanlal, Omprakash S/o Ghansilal 1/4 Chaturbhuj Kishanlal S/o Dhansilal 1/4 Harischand Jagdish S/o Chunnilal 1/2 Laskari
		196	Private	Agriculture	0.125	Maharaja Ston 67 Jakhamata
		195	Private	Agriculture	0.27	Maharaja Ston 67 Jakhamata
		194	Government	Siwaichak	0.44	Tehsildar
		146	Government	Siwaichak	0.125	Tehsildar
		151	Private	Agriculture	0.32	Khema, Dhanna S/o Tolaram Cast Laskari
		150	Private	Agriculture	0.01	Khema, Dhanna S/o Tolaram Cast Laskari
		246	Private	Agriculture	0.24	Babulal, Jamunalal, Brijmohan, Prithviraj, Rajendra Kumar S/o Ramlal, Ramkanwari, Yosada, Rajni D/o Ramlal, Nathibai W/o Ramlal, Ramchandra S/o Tulsiram, Prabhulal S/o Ratanlal, Balibai D/o Ratanlal W/o Tulsiram 1/3 Chetnayram S/o Aklal Mohani, Shyam D/o Ramlal, Khemchand S/o Narayan, Gulabbai, Bhuribai, Kasibai D/o Narayan 1/3 Om Prakash S/o Ghasi 1/3 Baldev Raj S/o Hardev 1/6

1	2	3	4	5	6	7
		245	Private	Agriculture	0.02	Babulal, Jamunalal, Brijmohan, Prithviraj, Rajendra Kumar S/o Ramlal, Ramkanwari, Yosada, Rajni D/o Ramlal, Nathibai W/o Ramlal, Ramchandra S/o Tulsiram, Prabhulal S/o Ratanlal, Balibai D/o Ratanlal W/o Tulsiram 1/3 Chetnayram S/o Aklal Mohani, Shyam D/o Ramlal, Khemchand S/o Narayan, Gulabbai, Bhuribai, Kasibai D/o Narayan 1/3 Om Prakash S/o Ghasi 1/3
		247	Government	Siwaichak	0.003	Tehsildar
		249	Private	Agriculture	0.006	Moti, Pushpa, Shanker S/o Gangaram 3/6, Phulchand, Kanhyai S/o Dhanna 1/6, Bhawaribai D/o Payarelal Sarswatibai W/o Payaralal 1/6 Janunalal, Daulatram, Babulal S/o Mulya Dalibai, Dwarkabai, D/o Mulya Bhulibai W/o Mulya cast Laskari
		284	Private	Agriculture	0.104	Puranmal, Pappu S/o Nandkishor 1/3 Ramchandra, Manna, S/o Modu 1/3 Nanda S/o Bhairu, Lalchand S/o Kashyap 1/3, Prembai 1/3 Cast Laskari.
		159	Government	Siwaichak	0.03	Tehsildar
		193	Private	Agriculture	0.17	Lalchand, Mohanlal S/o Kishana, Pannibai, Devbai, Surjabai Ramkanya D/o Kishna, Narayani W/o Krishna cast Laskari
18	Hathikhera	252/370	Government	Charagah	0.16	Charagah
		251/356	Private	Agriculture	0.96	Govindlal, Laxminarayan S/o Juwarilal Meena
		251	Private	Agriculture	0.128	Bajakanwar W/o Karan Singh Rajput
		249	Private	Agriculture	0.62	Dilawar Singh S/o Noor Singh Sikh
		248	Private	Agriculture	0.03	Dilawar Singh S/o Noor Singh Sikh
		247	Private	Agriculture	0.39	Kuldeep Singh S/o Dilawar Singh Sikh
		246	Private	Agriculture	0.228	Bakhtawar Singh S/o Noor Singh Sikh
		246/363	Private	Agriculture	0.57	Natendarpal Singh S/o Bakhtawar Singh Sikh
		241	Private	Agriculture	0.6	Narayan Soniram, Panchulal S/o Chanda 3/4 Ramsingh, Sunil, Ramkumar S/o Giyarsiram, Mohani, Prembai D/o Gyasi Ram Rupali W/o Giyarsiram Meena



1	2	3	4	5	6	7
		239	Private	Agriculture	1.3	Hikkamtulla , Shaphiullam, Ammaulla, Raphiulla, S/o Bilaitkhan, Hashina, Sahjad, Noornisha, Mehrunisha Ahida D/o Kiphayat Khan , Sugri widow Kiphayat khan Hans S/o Rajiya Muslim Kota
		371/252	Private	Agriculture	0.149	Bajakanwar W/o Karan Singh Rajput
		9	Private	Agriculture	0.0242	Chothmal S/o Kanwarlal
		10	Private	Agriculture	0.96	Nand Singh, Bhupendra Singh, Shyam Singh Mahaveer Singh, Indra Singh, S/o Mohan Singh, Laxmi Kanwar D/o Mohan Singh Rajput
		252	Government	Siwaichak	0.144	Tehsildar
		29	Private	Agriculture	0.07	Laxmichand S/o Vishal Singh Jat
		29/328	Private	Agriculture	0.1024	Abhagodra W/o Laxmichand Godhara
		27	Private	Agriculture	0.07	Ramratan S/o Panna Laskeri
		28	Private	Agriculture	0.08	Ramratan S/o Panna Laskeri
		6	Private	Temple	0.85	Mundir Shri Murli Manoharji
		5	Private	Agriculture	0.28	Mahesh Sakyawal S/o Bhanwarlal Koli Kotdi
		4	Private	Agriculture	0.02	Mahesh Sakyawal S/o Bhanwarlal Koli Kotdi
		3	Private	Agriculture	0.106	Mahesh Sakyawal S/o Bhanwarlal Koli Kotdi
		2	Private	Temple	0.252	Mundir Shri Murli Manoharji
		1	Government	Siwaichak	0.21	Tehsildar
		62	Government	Siwaichak	0.02	Tehsildar
		253	Government	Siwaichak	0.18	Tehsildar

[F. No. NHAI/11014/Tech./EW-II/LA/Kota/2003]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

915 97/2005-10